



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2539]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2539]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3056(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1911(अ), तारीख 21 अगस्त, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के करनाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 100/000 कि.मी. से 152/225 कि.मी. (पानीपत-जालंधर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 1 सितम्बर, 2012 को "दैनिक भास्कर" पानीपत संस्करण और "टाइम्स ऑफ इण्डिया" चण्डीगढ़ संस्करण दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची-3 (डी)

हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 100.000 कि.मी. से 152.225 कि.मी. (पानीपत-जालंधर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाले संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुका का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | करनाल | (1) करनाल | कस्बा करनाल | 9021 | निजी | गैर कृषि | 238.000 | श्री मति शाला कुमारी पत्नी व राहुल पुत्र रूप नारायण पुत्र राम किशन व श्री मति रानी पत्नी विक्रम पुत्र चरणजीत पुत्र राम किशन श्री मति सुदर्शन पत्नी जगमोहन लाल व उषा रानी पत्नी प्रेम प्रकाश पुत्र समभाग दो भाग कुल तीन 3 भाग निवासी कस्बा करनाल |
| 2 | | | | 9054 | निजी | गैर कृषि | 147.000 | श्री मति भागवती पत्नी सरदार सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी कस्बा करनाल |
| 3 | | | | 9047 | निजी | गैर कृषि | 84.000 | श्री मति भागवती पत्नी सरदार सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी कस्बा करनाल |
| 4 | | (2) नीलोखंडी | (2) नीलोखंडी | 131 | सरकारी | गैर कृषि | 1445.950 | केन्द्रीय सरकार वासीदेह |

[फा. सं. भाराप्रा/...../2012-13/हरियाणा/अम्बाला]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3056(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1911(E), dated the 21st, August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.1 on the stretch of land from Km. 100/000 to Km. 152/225 (Panipat-Jalandhar Section) in District of Karnal, in the State of Haryana ;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" Panipat edition, and "Times of India" Chandigarh edition, both dated 1st September, 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE 3 (D)

Brief description of the Land to be Acquired, with or without Structure, falling within the Stretch of Land from km 100/000 to 152/225 (Panipat-Jalandhar Section) of the National Highway No. 1 in the State of Haryana.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (In Square Metres) | Name of the land owner/ interested person |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Karnal | (1) Karnal | (1) Kasba Karnal | 9081 | Private | Non Agriculture | 238.000 | Smt. Shanta Kumari Wife V Rahul son Rup Naryain Son Ram kishan V Smt. Rani Wife Vikram son. chanran Jit Son Ram Kishan Smt. Sudarshan Wife Jag Mohan Lal V Usha Rani Wife Pream Parkash Son Some Bhagh 2 Bhag Khul 3 Bhag Niwasi kasba Karnal. |
| 2 | | | | 9054 | Private | Non Agriculture | 147.000 | Smt. Baghvanti Wife Sardara Singh Son Dharm Singh Vasi kasba Karnal. |
| 3 | | | | 9047 | Private | Non Agriculture | 84.000 | Smt. Baghvanti Wife Sardara Singh Son Dharm Singh Vasi kasba Karnal. |
| 4 | | (2) Nilokheri | (2) Nilokheri | 131 | Govt. | Non Agriculture | 1445.950 | Central Government Vashideah |

[F. No. NHAI/...../2012-13/Haryana/Ambala]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.